

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 1970/अग्रहायण 13, 1892

No. 436] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 1970/AGRAHAYANA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December 1970

S.O. 3893.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/89-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969, namely:—

In Table 3, against the entry "8. Madhya Pradesh" for the entries "(6) Cultivator winnowing grain and (7) Haldhar" the entries "(6) Cultivator winnowing grain, (7) Haldhar and (8) Railway Engine" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 30th November, 1970.

[No. 56/70-XIV.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

